



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

2 अग्रहायण 1932 (श0)
(सं0 पटना 758) पटना, मंगलवार, 23 नवम्बर 2010

निर्वाचन विभाग

अधिसूचना

15 अक्टूबर 2010

अधिसूचना सं0-बी1-3-70/2010-39—बिहार विधान-सभा का आम निर्वाचन, 2010 के अवसर पर इलेक्ट्रॉनिक मतदान मशीनों के प्रयोग से संबंधित भारत निर्वाचन आयोग का निदेश संख्या 576/3/ई.वी.एम./2010/एस.डी.आर (बिहार), दिनांक 4 अक्टूबर 2010 सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित की जाती है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

आर0 के0 प्रसाद,

उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार

—सह— सरकार के उप-सचिव।

निदेश

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001, तारीख 4 अक्टूबर, 2010

संख्या 576/3/ई.वी.एम./2010/एस.डी.आर(बिहार)-यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 61 क में यह उपबंधित है कि मतदान मशीनों द्वारा ऐसी रीति से मत दिए और रिकार्ड किए जाएंगे जैसा कि निर्वाचन आयोग ऐसे निर्वाचन क्षेत्र या निर्वाचन क्षेत्रों के लिए प्रत्येक मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए निर्दिष्ट करे तथा

2 यतः बिहार राज्य में आयोग ने 243 विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में से प्रत्येक की परिस्थितियों पर विचार किया है, और वह संतुष्ट है कि बिहार राज्य में इन विधान-सभा निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान के लिए पर्याप्त संख्या में इलैक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें उपलब्ध हैं, मतदान कर्मचारी इलैक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को दक्षतापूर्वक संचालन करने के लिए प्रशिक्षित हैं तथा निर्वाचक भी इलैक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों की कार्यप्रणाली से पूर्णतया परिचित हैं ;

3 अतः, अब, भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा बिहार राज्य में 243 विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों को ऐसे निर्वाचन क्षेत्र के रूप में विनिर्दिष्ट करता है जिसमें 27 सितम्बर, 2010, 29 सितम्बर, 2010, 4 अक्टूबर, 2010, 7 अक्टूबर, 2010, 15 अक्टूबर, 2010 और 27 नवम्बर, 2010, को अधिसूचित/अधिसूचित किए जाने वाले उक्त राज्य से विधान सभाओं के लिए चालू साधारण निर्वाचन में, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के अधीन निर्धारित रीति से इलैक्ट्रॉनिक मतदान मशीनों के माध्यम से मत डाले और रिकार्ड किए जाएंगे जैसा कि इस विषय पर आयोग द्वारा समय-समय पर अनुपूरक अनुदेश जारी किए जाते हैं।

आदेश से,
के0 एफ0 विल्फ्रेड,
सचिव।

ELECTION COMMISSION OF INDIA

DIRECTION

Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi -110 001, dated 4th October, 2010

No. 576/3/EVM/2010/SDR(BR):- Whereas, Section 61A of the Representation of the People Act, 1951, provides that the giving and recording of votes by voting machines in such manner as may be prescribed, may be adopted in such constituency or constituencies as the Election Commission may, having regard to the circumstances of each case specify; and

2. Whereas, the Commission has considered the circumstances in each of the 243 Assembly Constituencies in the State of Bihar, and is satisfied that sufficient number of Electronic Voting Machines are available for taking the poll in these 243 Assembly Constituencies in the State of Bihar, the polling personnel are well trained in efficient handling of the Electronic Voting Machines and the electors are also fully conversant with the operation of the Electronic Voting Machines;

3. Now, therefore, the Election Commission of India hereby specifies each of the 243 Assembly Constituencies in the State of Bihar, as the constituencies in which the votes at the current general election to the Legislative Assembly of the State notified/to be notified on 27th September, 2010, 29th September, 2010, 4th October, 2010, 7th October, 2010, 15th October, 2010 and 27th October, 2010, shall be given and recorded by means of Electronic Voting Machines in the manner prescribed under the Conduct of Elections Rules, 1961, and the supplementary instructions issued by the Commission from time to time on the subject.

By Order,
K. F. WILFRED,
SECRETARY.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 758-571+300-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>